



August 08, 2024

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai - 400001

The National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C-1, Block – G, Bandra Kurla
Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051

Ref.: **Indus Towers Limited (534816/ INDUSTOWER)**

Sub.: **Newspaper advertisement regarding Notice of 18th Annual General Meeting ('AGM') of the Company and e-voting information**

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to the Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and our communication dated August 07, 2024, please find enclosed copies of newspaper advertisements published today i.e., on August 08, 2024, in the below mentioned newspapers regarding information for completion of dispatch of the Notice of 18th (Eighteenth) AGM and Integrated Report & Financial Statements of the Company for the Financial Year ended March 31, 2024, electronically to the eligible Shareholders.

1. Mint in English; and
2. Hindustan in Hindi

The above information/ advertisements are also available on the website of the Company at www.industowers.com.

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours faithfully,

For **Indus Towers Limited**

Samridhi Rodhe
Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: As above

Indus Towers Limited

RIL aims to be a green leader

The conglomerate plans to expand retail biz, bolster investments to strengthen Jio network, digital capabilities

Anirudh Laskar
anirudh@htlive.com
MUMBAI

Billionaire Mukesh Ambani-promoted Reliance Industries Ltd (RIL), India's most valuable firm, on Wednesday laid out its plan to be one of the world leaders in new energy, boost its retail business and bolster investments to strengthen Jio's network and digital capabilities in the coming years.

"Reliance has consolidated its balance sheet after the previous round of capex and is ready for the next level of growth," Ambani, the RIL chairman, said in the company's annual report.

Ambani, with a net worth of more than \$109 billion, was ranked Asia's second-richest man by the Bloomberg Billionaires Index in June.

Addressing RIL's shareholders in its annual report for FY24, he said, "Our new energy and new materials business is poised to become one of the largest providers of green energy globally, as well as a prime contributor towards India's 2070 net zero target."

Ambani said the company's ambitious renewable energy project—the Dhirubhai Ambani Green Energy Giga Complex—in Jamnagar, Gujarat, is



Mukesh Ambani said Reliance has consolidated its balance sheet after the previous round of capex and is ready for the next level of growth. REUTERS

progressing rapidly as RIL works towards its goal of attaining net carbon zero by 2035. Ambani's net-zero target entails a faster transition than his closest rival and Asia's richest businessman Gautam Adani.

Adani has set a target to become net zero by 2050 for five of its key portfolio companies—Adani Green Energy, Adani Energy Solutions, Adani Ports & SEZ, ACC and Ambuja Cements.

Ambani, who has pitched his younger son Anant's name as the upcoming leader for the group's green energy business, said, "We are also exploring multiple technologies for capture and recycling of carbon."

RIL said it signed an agreement last year with the Maharashtra government for 100 KTPA green hydrogen production, with total projected investment of ₹15,000 crore. The

group has already committed billions of dollars towards green energy investments in Gujarat. Elaborating on its green energy roadmap, RIL said that by 2025 it will establish 20GW solar capacity for captive needs of round-the-clock power and intermittent energy for green hydrogen.

By 2025, RIL will commence transition from grey to green hydrogen and industrialise sodium ion cell production at a megawatt level. By 2026, Jamnagar PV factory will be scaled to 20GW in a phased manner and a comprehensive battery giga factory is planned to be established. By 2027, RIL will expand its cell-to-pack manufacturing facility to 50GW annually, and by 2030, the company will establish and enable 100GW of renewable energy.

"The company will also invest in enhancing the value chain, partnerships and future technologies, including upstream and downstream projects," RIL said in the annual report.

The firm will manufacture battery chemicals and components, focus on energy storage system, and build an electrolyser and hydrogen value chain. India's dependence on fossil

fuels-based energy increases its import bills and results in a foreign exchange drainage.

"India needs to solve this problem to maintain its growth trajectory and reach \$32 trillion GDP by 2047," said RIL.

In the coming years, RIL will develop supply chain locally and reduce the reliance on imports.

Ambani said RIL's new energy business will play a "pivotal role" in the global movement for adoption of cleaner fuels as the group aims to sell affordable clean energy to the public through the facilities that will be installed in the coming years.

While transitioning from fossil fuels to renewables, the company is maximizing its sustainable materials and chemicals as part of its portfolio, it said.

While doing so, RIL aims to be one of the world's leading new energy and new materials company over a period of 15 years, and in line with its initial commitment to invest ₹75,000 crore in clean energy, RIL has drawn internal targets for enhancing solar capacity for its captive needs, establishing giga factories, and enabling 100GW of renewable energy by 2030.

20GW

The solar capacity that RIL will set up for captive needs


FY24 was tough for RIL's lifestyle firms

Varuni Khosla
varuni.k@livemint.com
NEW DELHI

Reliance Industries Ltd-controlled international and Indian lifestyle brands had a tough financial year that ended in March, with a majority of its businesses reporting a weak performance, according to the company's annual report released on Wednesday.

Some companies, led by Reliance Brands Ltd (RBL) that owns more than 50 international fashion labels, faced challenges. Despite an increase in total revenue by 13% to ₹2,303 crore in FY24, RBL's losses widened by 55% to ₹288.4 crore from ₹185.16 crore in FY23. The increase in sales did not translate into profitability for brands like Diesel Fashion India and Paul & Shark which RBL controls. RBL began operations in 2007 and has a portfolio of brand partnerships comprising Dune, Hamleys, Pottery Barn, Tory Burch and West Elm.

Reliance has a controlling stake in about 50 international brands which are either in the luxury domain or the affordable or entry segment. It also works with over half a dozen



A majority of RIL lifestyle firms posted a weak performance last fiscal year. REUTERS

fashion designers like Rahul Mishra, Manish Malhotra, Anamika Khanna, Abraham & Thakore, Abu Jani, Sandeep Khosla and Ritu Kumar.

After a very strong FY22, when India came out of the pandemic and shoppers stamped out to buy fashion and luxury goods, a consumption slowdown in 2023 meant reduced discretionary spending. Most of Reliance's designer brands reported losses in the year gone by. While designer duo Abu Jani and Sandeep Khosla showed profitability, other brands under its portfolio struggled, reflecting a challenging environment in the luxury fashion sector.

INDUS TOWERS LIMITED
CIN: L64201HR2006PLC073821
Regd. Office: Building No. 10, Tower-A, 4th Floor, DLF Cyber City, Gurugram-122002, Haryana
Tel: +91-124-4296766, Fax: +91-124-4289333
Email id: compliance.officer@industowers.com Website: www.industowers.com

NOTICE OF 18th ANNUAL GENERAL MEETING ('AGM') OF INDUS TOWERS LIMITED AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that:

- The 18th AGM of the Members of Indus Towers Limited ('Company') will be held through Video Conferencing ('VC')/ Other Audio Visual Means ('OAVM') on Thursday, August 29, 2024 at 03:30 P.M. (IST) to transact the businesses set out in the Notice of 18th AGM ('Notice'), in compliance with the applicable provisions of Companies Act, 2013, rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, General Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021, General Circular No. 19/2021 dated December 08, 2021, General Circular No. 21/2021 dated December 14, 2021, General Circular No. 02/2022 dated May 05, 2022, General Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022, General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 and other applicable circulars issued by Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circulars') and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/JP/2021/11 dated January 15, 2021 Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/JP/2022/62 dated May 13, 2022, Circular No. SEBI/HO/CFD/POD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI Circulars').
- In accordance with the MCA Circulars and the SEBI Circulars, the Notice and Integrated Report & Financial Statements 2023-2024 ('Integrated Report') have been sent through electronic mode to those Members whose email ids are registered with the Company/ Depository Participants (DPs). A hard copy of the full Integrated Report shall be sent to those members who will request for same. The Notice and the Integrated Report are also available on the website of the Company at <https://www.industowers.com>, on the website of National Securities Depository Limited (NSDL), at www.evoting.nsdl.com and on the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. The dispatch of Notice and Integrated Report through e-mails has been completed on August 07, 2024.
- The Members holding shares either in physical mode or in dematerialized form, as on Thursday August 22, 2024 ('Cut-off Date') may cast their votes electronically on the Ordinary and Special Businesses as set out in the Notice through remote e-voting or e-voting at the AGM. The remote e-voting shall commence on Monday, August 26, 2024 at 09:00 A.M. (IST) and end on Wednesday, August 28, 2024 at 05:00 P.M. (IST). The remote e-voting shall not be allowed beyond 05:00 P.M. (IST) on Wednesday, August 28, 2024. Once a vote on a resolution is casted by the Member, it cannot be modified subsequently. A person whose name is recorded in the Register of Members or Register of Beneficial Owners as on the Cut-off Date shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting at the AGM.
- The Members may please note that the facility for e-voting will also be made available during AGM and those members present in the AGM through VC/OAVM and who have not casted their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system in the AGM. The Members who have casted their vote by remote e-voting may also attend the AGM through VC/OAVM but will not be able to vote again during the AGM.
- A person who becomes a Member of the Company after the Notice has been sent electronically and holds shares as on the Cut-off Date i.e. Thursday, August 22, 2024 may obtain User ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if a person is already registered with NSDL for e-voting, then the existing User ID and password can be used by them for casting their votes.
- The manner of voting electronically is provided in the Notice. The details are also available on the website of the Company at www.industowers.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.
- Members who have not yet registered their email addresses and consequently have not received the Notice and the Integrated Report, are requested to get their e-mail addresses and mobile numbers registered by following the guidelines mentioned in the Notice.
- The Members holding shares in physical mode are hereby notified that in terms of the SEBI Circular number: SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-POD-1/P/CIR/2023/37 dated March 16, 2023, all holders of physical securities can register e-mail ID/ contact details through submitting the requisite Form ISR-1 along with the supporting documents. Form ISR-1 is available on the link <https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx> and detailed FAQs on the same are also available on the link: <https://ris.kfintech.com/faq.html>.
- The Members holding securities held in electronic mode are requested to register/ update their email ids with their respective DP(s), where the DEMATA/c is being held.
- Procedure for joining the AGM and e-voting process, have been provided in detail in the Notice and is also available on the website of the Company at www.industowers.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.
- The result of e-voting will be declared within 2 (two) working days or 3 (three) days, whichever is earlier, from conclusion of the AGM and will be placed on the website of the Company at www.industowers.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.co.in. The result will simultaneously be communicated to the Stock Exchange(s).
- In case of any queries, the Members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for the Shareholders and e-voting user manual for the Shareholders, available at download section on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com or call on 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request at evoting@nsdl.co.in.

For Indus Towers Limited
Sd/-
Place: Gurugram Samridhi Rodhe
Date: August 07, 2024 Company Secretary & Compliance Officer

EMPOWERING LIVES, FUELLING A SUSTAINABLE FUTURE

HIGHEST EVER CNG VOLUME
2.98 mmscmd

PAT
₹ 329.78*
cr.

PBT
₹ 443.30*
cr.

EPS
₹ 4.79*

REVENUE
₹ 4653.38*
cr.

GUJARAT GAS

*Standalone Figures

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON 30th JUNE 2024 (₹ in Crores)

Sr. No.	Particulars	Standalone		Consolidated			
		Quarter ended		Quarter ended	Year ended		
		30-06-2024	30-06-2023	30-06-2024	30-06-2023	31-03-2024	
		Un-audited	Audited	Un-audited	Audited		
1	Total income from operations	4,653.38	3,947.55	16,400.72	4,653.38	3,947.55	16,399.08
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional items)	443.30	289.36	1,480.52	443.30	289.36	1,478.88
3	Net Profit for the period before Tax (after Exceptional items)	443.30	289.36	1,536.21	443.30	289.36	1,534.57
4	Net Profit for the period after Tax (after Exceptional items)	329.78	215.09	1,142.77	330.71	215.95	1,143.70
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	332.08	216.14	1,151.43	332.99	216.97	1,152.31
6	Equity Share Capital (Face value of ₹ 2/- each)	137.68	137.68	137.68	137.68	137.68	137.68
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet)			7,551.58			7,584.80
8	Earnings Per Share in ₹ (Face Value of ₹ 2/- each) (not annualised for quarter)						
	Basic (₹)	4.79	3.12	16.60	4.80	3.14	16.61
	Diluted (₹)	4.79	3.12	16.60	4.80	3.14	16.61

Note:

- The financial statements have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and read together with the Companies (Indian Accounting Standards - Ind AS) Rules issued thereafter and other accounting principles generally accepted in India. These financial results are presented in accordance with the requirements of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time along with other relevant rules issued thereunder.
- The above is an extract of the detailed format of quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended). The full format of the same is available on the Stock Exchange websites. (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and also on Company's website www.gujaratgas.com.
- The above financial results were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 6th August, 2024 at Gandhinagar, Gujarat.
- Previous period figures have been reclassified / regrouped wherever considered necessary to conform to the current period figures.

For and on behalf of Board of Directors
Gujarat Gas Limited
Milind Torawane, IAS
Managing Director

GUJARAT GAS LIMITED
Regd. Office: Gujarat Gas CNG Station, Sector-5/C, Gandhinagar-382006,
District: Gandhinagar, Gujarat. Tel: +91-79-26462980 Fax: +91-79-26466249 Website: www.gujaratgas.com
Email: investors@gujaratgas.com | CIN : L40200GJ2012SGC069118

मंदाकिनी नदी पर बने पुल के बहने से राहत-बचाव कार्य बाधित
सोनप्रयाग में सेना का
बनाया अस्थायी पुल बहा



सोनप्रयाग में इसी स्थान पर बनाया गया था सेना द्वारा अस्थाई पुल।
हिमाचल के कई हिस्सों में बारिश, ऑरेंज अलर्ट जारी
शिमला हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश होने के कारण भूस्खलन की घटनाएं हुईं और रेड उखड़ गए।

बिहार
बिहार प्रकृति की दोहरी मार झेल रहा है। हालात ऐसे हैं कि वहां एक नदी पानी को तरस रही है तो दूसरी उफना रही है। आठ जिलों में ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं। विशेषज्ञ भी हौरान हैं। इसे आने वाले समय के लिए बड़े खतरे के रूप में मान रहे हैं। आमतौर पर ऐसे हालात दक्षिण बिहार में अधिक देखने को मिलते हैं।

नालंदा में एक नदी उफनाई तो दूसरी पानी को तरसी



नालंदा में सामान्यतया सूखी रहने वाली लोकाइन नदी ने तबाही मचायी है।



नालंदा में पंचाने नदी पानी को तरस रही है।

बारिश की प्रकृति बदली
नदी विशेषज्ञ दिनेश मिश्रा के अनुसार नदियों की इस प्रकृति का बड़ा कारण अनियमित बारिश है। बारिश की प्रकृति बदल गयी है। एक स्थान पर बारिश होती है तो वहीं बगल में नहीं होती।

कब से ऐसी स्थिति
विशेषज्ञों का कहना है कि नदियों के व्यवहार में अंतर तो 90 के दशक से ही प्रारंभ हो गया है। पिछले एक दशक से ऐसी स्थितियां बढ़ी हैं। तीन-चार वर्षों में नदियों के सूखने का सिलसिला तेज हुआ।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू न्यूजीलैंड पहुंचीं

ऑकलैंड, एजेंसी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में बुधवार को न्यूजीलैंड पहुंचीं। उनके दौरे का उद्देश्य भारत और न्यूजीलैंड के द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना है। अपनी यात्रा के दौरान मुर्मू गवर्नर जनरल डेम सिंडी कीरो, प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और अन्य वरिष्ठ मंत्रियों से मुलाकात करेंगी।

एमवीए मिलकर चुनाव लड़ेगा : खरगो

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच शिवसेना (यूबीटी) अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगो और राहुल गांधी से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान राजनीतिक हालात के साथ ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर चर्चा हुई। तय हुआ कि एमवीए एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा। महाराष्ट्र में इस वर्ष के अंत में चुनाव होने हैं। मुलाकात के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने 'एक्स' पर पोस्ट कर यह जानकारी दी। सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस ने कमेटी बनाई :

ठाकरे ने सीएम का चेहरा बनने के संकेत दिए
बैठक के बाद उद्धव ठाकरे ने संवाददाताओं के कई सवालों का जवाब दिया। ठाकरे ने एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर मेरे सहयोगियों (एमवीए में) को लगता है कि मैंने राज्य में अच्छा काम किया है, तो उनसे पूछें कि क्या वे मुझे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। उन्होंने संकेत दिया वह आने वाले चुनाव मुख्यमंत्री का चेहरा बनने को तैयार हैं।

सरकारें जनता के धैर्य की परीक्षा न लें : उद्धव
नई दिल्ली, वि.सं। शिवसेना (यूबीटी) अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने बांग्लादेश घटनाक्रम को दुनिया के लिए सबक करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस घटनाक्रम का संदेश साफ है कि जनता सर्वोच्च है और शासकों को उनके धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। उन्होंने बांग्लादेश के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अत्याचार का निशाना बने हिंदुओं को बचाने की भी चुनौती दी।

देश 30
अमित शाह से मिले पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा

नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। गृह मंत्री के कार्यालय में एक्स यह जानकारी दी। बता दें कि 91 वर्षीय देवेगौड़ा की अध्यक्षता वाली जद (एस) सतारूढ़ पनडीए का हिस्सा है। देवेगौड़ा के बेटे एचडी कुमारस्वामी नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हैं।

सिमी पर पांच साल का प्रतिबंध लगा रहेगा

नई दिल्ली। एक न्यायाधिकरण ने बुधवार को स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) पर लगाए गए प्रतिबंध को पांच साल तक बढ़ाने की पुष्टि कर दी। न्यायिक न्यायाधिकरण ने कहा कि संगठन ने 'जिहाद' के अपने उद्देश्य को नहीं छोड़ा है और वह भारत में इस्लामी शासन की स्थापना के लिए काम करना जारी रखना चाहता है।

टैगोर की विरासत का अपमान हो रहा: कांग्रेस

नई दिल्ली। नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर की 83वीं पुर्वतिथि पर बुधवार को कांग्रेस महासचिव विजय राम रमेश ने कहा कि सत्तारूढ़ विचारधारा के लोग उनकी विरासत का हर दिन अपमान कर रहे हैं। उन्होंने (टैगोर) जिन चीजों की उकालत की, उन्हें नष्ट करने की कोशिश की जा रही है।

भारतीय रेल भारत सरकार (GOVERNMENT OF INDIA) रेल मंत्रालय (MINISTRY OF RAILWAYS) (रेलवे बोर्ड) (RAILWAY BOARD) शुद्धिपत्र संख्या 1

इंडस टॉवर्स लिमिटेड सी.आर.एन. नं. 10, टॉवर-ए, चतुर्थ तल, डीएलएफ साइबर सिटी, गुरुग्राम-122002, हरियाणा

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (ISO 9001 : 2015 एवं ISO 14001 : 2015 प्रमाणित संस्था) विकास पथ गाजियाबाद पत्रांक 48/मास्टर प्लान/जोन-4/24 दिनांक- 31/07/2024

गाजियाबाद नगर निगम कार्यालय- मुख्य अभियंता, नवगुप्त मार्केट गाजियाबाद 201001 दिनांक 07.08.2024

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति पर्यावरण विभाग, (रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार) पांचवां तल, आईएसबीटी बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, दिल्ली-06 हमें देखें: http://dpcc.delhigovt.nic.in

विद्युत कार्यपालक अभियंता का कार्यालय विद्युत कार्य प्रमंडल सं-01 भवन निर्माण विभाग, पटना अति अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना सं-09 वर्ष 2024-25

विकास प्रशासन विभाग (रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार) पांचवां तल, आईएसबीटी बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, दिल्ली-06 हमें देखें: http://dpcc.delhigovt.nic.in

कार्यालय अधिशाषी अभियंता, सा.नि.वि. खण्ड राजगढ़ (चूरू) दिनांक: 30.07.2024 ई-निविदा सूचना संख्या: 07/2024-25

उत्तरखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (उत्तरखण्ड सरकार का उपक्रम) E-TENDER NOTICE E-TENDER No.08/EDC(U)/2024-25:- Maintenance, Overhauling and testing of 11 KV and 33 KV Breakers with supply & fixing of de-centralized materials for the period of one year under EDD (South), 18-E.C.Road, Dehradun.